

01st September, 2021

| | |
|---|---|
| <p>Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra- Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400051.</p> <p>NSE Symbol: SPLIL</p> | <p>Listing Department BSE Limited Phirozee Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001.</p> <p>Scrip Code: 532651</p> |
|---|---|

Subject: Compliance under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, please find enclosed, extract of the newspaper advertisements published w.r.t. Notice of 30th Annual General Meeting and E-voting information of the Company published in the following newspaper on 01st September, 2020-

- Business Standard (English Edition)
- Business Standard (Hindi Edition)


Please note that pursuant to Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the record date/cut-off date is September 17, 2021 for the members entitled to vote on resolutions proposed to be transacted at the ensuing AGM of the company which is scheduled to be held on Wednesday, 29th September, 2021.

Kindly take the same on records.

Thanking you,



For, SPL Industries Limited



Ashish Yadav
Company Secretary
& Compliance Officer

pnbb **Branch- Bayana Tehsil Bharatpur, Dist. Bharatpur (Raj.)**

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) (Appendix IV under the Act-Rule-81)

Whereas the undersigned being the Authorized officer of the **PUNJAB NATIONAL BANK** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (No.54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated **29.05.2021** calling upon the borrower **Sh. Hari Singh S/o Tuhya Ram Bhagwat Colony, Bayana, Bharatpur-321021** to repay the amount mentioned in the notice Rs. **17, 19, 020.19 (Rupees Seventeen Lakh Nineteen Thousand Twenty and Paise Nineteen Only)** as on 31.03.2021 and further interest and other charges within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken **symbolic possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on this **25th day of August of the year 2021**.

The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the below mentioned property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Punjab National Bank Branch: Bayana, Dist. Bharatpur for an amount Rs. **17, 19, 020.19 (Rupees Seventeen Lakh Nineteen Thousand Twenty and Paise Nineteen Only)** as on 31.03.2021 with further interest and expenses incurred thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY

Residential Plot situated at bhagwati colony, bayana kshra, no. 746, 747, 748. Boundaries- North: Raghunath Prasad, South: Bhagwan Singh, East: East 14 feet wide, West: Sugar Singh

Date: 25.08.2021 Place: Bharatpur Authorized Officer Punjab National Bank

pnbb **Branch- Bayana Dist. Bharatpur (Raj.)**

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) (Appendix IV under the Act-Rule-81)

Whereas the undersigned being the Authorized officer of the **PUNJAB NATIONAL BANK** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (No.54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated **15.05.2021** calling upon the borrower **M/s Bhanu Redimade Centre (Sh. Raj Bahadur Singh S/o Ramji Lal) near SBI surath, hindoun Karoli** to repay the amount mentioned in the notice Rs. **14, 54, 740/- (Rupees Fourteen Lakh Fifty Four Thousand Seven Hundred Forty Only)** as on 31.03.2021 and further interest and other charges within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken **symbolic possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on this **25th day of August of the year 2021**.

The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the below mentioned property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Punjab National Bank Branch: Bayana, Dist. Bharatpur for an amount Rs. **14, 54, 740/- (Rupees Fourteen Lakh Fifty Four Thousand Seven Hundred Forty Only)** as on 31.03.2021 with further interest and expenses incurred thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY

EM of land and property khasra no. 52 at near sbi branch station road surath, hindoun, karoli area 217.44 sq.mt. name of Raj Bhadur S/o Ramjilal

Date: 25.08.2021 Place: Bharatpur Authorized Officer Punjab National Bank

PAISALO PAISALO DIGITAL LIMITED

REGD. OFF: CSC, POKER 52, NEAR POLICE STATION, CR PARK, NEW DELHI-110019
TEL: +91 11 43518888 Web: www.paisalo.in CIN: 165921DL1992PLC120483

अर्थ: समाज्य चारः
अर्थ: समाज्य चारः

NOTICE OF THE 29th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE & E-VOTING

In continuation of our notice dated August 27, 2021, Notice is hereby given that:

- The 29th Annual General Meeting (AGM) of Paisalo Digital Limited will be held on Saturday, September 25, 2021 at 10:30 AM, through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") as per relaxation provided by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its Circular No. 20/2020 dt. May 5, 2020 read with General Circulars No. 14/2020 dt. April 8, 2020, 17/2020 dt. April 13, 2020, 02/2021 dt. January 13, 2021, and SEBI Circulars SEBI/CFD/CMD/2/CIR/P/2021/79 dt. May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD/2/CIR/P/2021/11 January 15, 2021 without the physical presence of the Members at common venue.
- In terms of Section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Rules 13 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time read with aforesaid circulars, the Company on August 31, 2021, has completed the sending of Annual Report of the Company containing Notice of AGM along with Audited Standalone & Consolidated Financial Statements for the financial year ended March 31, 2021 and reports of the Auditors and Board, to Members whose names have appeared in Register of Members/Beneficial Owners as on August 27, 2021, through electronic mode whose email ids are registered with the Company/Depository Participant(s). The Notice of AGM and the Annual Report is also available on the Company's website www.paisalo.in.
- Pursuant to provisions of Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Sunday, September 19, 2021 to Saturday, September 25, 2021 (Both Days Inclusive) for the purpose of AGM and Equity Dividend, if approved by members at AGM.
- Pursuant to provisions of Section 108 of the Act, rules framed thereunder and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with aforesaid circulars, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically during remote E-Voting period and also during the AGM on all resolutions set forth in the Notice of the AGM. The Company has engaged National Securities Depository Limited (NSDL) as the Agency to provide E-Voting facility and to provide VC/OAVM facility for 29th AGM.
- The remote E-Voting period shall commence on Wednesday, September 22, 2021 from 9:00 AM (IST) and ends on Friday, September 24, 2021 at 5:00 PM (IST). During this period, Members of the Company, holding shares in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Saturday, September 18, 2021 may cast their vote electronically. The remote E-Voting facility for 29th AGM shall be disabled thereafter and shall not be allowed beyond the said date and time. The manner of E-Voting for the members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the AGM.

The results of voting shall be declared not later than 3 days from the date of AGM and shall be placed on the Company's website i.e. www.paisalo.in and NSDL website www.evoting.nsdl.com.

In case of any queries/grievances related to E-Voting, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and Remote E-Voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-1020-990/1800-224-30 or send a request to Ms. Soni Singh, Assistant Manager at evoting@nsdl.co.in Members may also write to Company Secretary of the Company at the E-mail ID - cs@paisalo.in.

By Order of the Board of Directors For Paisalo Digital Ltd.
sd/-
Manendra Singh
(Company Secretary)

Place: Agra Date: August 31, 2021

मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित
(मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)

धूम तल, पंचानम बगर, मालवीय नगर, भोपाल
दूरभाष क्रमांक : 2673141 (For online help), 2673125, 2673129
mplunplb@yahoo.com, support.lun@mp.gov.in

ई-निविदा सूचना क्रमांक 10-ए/2021-22

म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा ई-प्रोक्वोरमेंट निविदा सिस्टम के माध्यम से निम्नलिखित उत्पादों हेतु वार्षिक दर अनुबंध आधार पर, निम्नलिखित को अपरान्त 4.00 बजे तक निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं :-

| S. No. | Tender No. | Name of Product | EMD/PG | Last Date of Bid Submission |
|--------|------------|--|----------|-----------------------------|
| 1. | 21050-A | Processed Bamboo Furniture | 50000/- | 22.09.2021 |
| 2. | 21051-A | Mobile Health Team Kit (MHT KIT) | 100000/- | 22.09.2021 |
| 3. | 21052-A | ISI Marked A.C. Pipe with Suitable coupling along with ISI Marked Rubber Sealing Rings manufactured by Mazza Process | 200000/- | 22.09.2021 |

नोट :- निविदा में भाग लेने हेतु पत्रता, पूर्ण निविदा दस्तावेज, निविदा आमंत्रण सूचना, निविदा अर्त आदि की जानकारी **mpenders.gov.in** पर देखी जा सकती है। निविदा में भाग लेने के लिए उक्त पत्रता पर पंजीकरण आवश्यक है।
म.प्र. माध्यम/101794/2021 **प्रबंध संचालक**

pnbb **Circle SASTRHA Department, Circle Office, Harshil Tower 29, Naru Marg, Alwar, Rajasthan, Phone: 0144-2700667 E-Mail: coawlsasmt@pnbb.co.in, cs8184@pnbb.co.in**

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

(As per Appendix IV read with rule 81) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas the undersigned being the Authorized officer of the Punjab National Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (No.54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated **29.05.2021** calling upon the borrower **Sh. Nihal Singh Yadav S/o Sh. Jai Ram Yadav** to repay the amount mentioned in the notice being Rs. **1014939.46 (Rupees Ten Lakh Fourteen Thousand Nine Hundred Thirty Nine Rupees and Paise Forty Six Only)** as on 03.04.2021 plus costs, charge and expenses till date of payment within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the Act read with Rule 8 of the said Security Interest Enforcement Rules, 2002 on this **27th day of August of the year 2021**.

The borrower/Guarantors/Mortgagor in particular and Public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Punjab National Bank Branch: **Neemrana Dist- Alwar** for an amount of Rs. **1014939.46 (Rupees Ten Lakh Fourteen Thousand Nine Hundred Thirty Nine Rupees and Paise Forty Six Only)** as on 03.04.2021 plus costs, charge and expenses till date of payment. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

Residential Plot Located at Village Daulatsinghpura, Tehsil Neemrana Alwar, Rajasthan measuring 378 Sqyds vide Patta Sankhya 6, Misal No. 23 dated 23.10.2004 in the name of Sh. Nihal Singh Yadav S/o Sh. Jai Ram Yadav North- Bound: East- Common Road West- Agri Land of Sh. Ramchander Yadav, North: Agri Land of Sh. Sant Lal South:-House of Sh. Kailash Yadav

Date: 27.08.2021 Place: Alwar Chief Manager (Authorized Officer)

UVAL
URAVI T AND WEDGE LAMPS LIMITED
CIN: L31500MH2004PLC145760

Regd. Off.: Shop No. 329 A/W, Nirmal Galaxy, L. B. S Marg, Mulund West, Mumbai-400080
Website: www.uravilamps.com; Email: info@uravilamps.com

INFORMATION REGARDING THE 17th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERRING (VC)/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

NOTICE is hereby given that pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013, Rules made thereunder and General Circular No. 02/2021 dated 13th January 2021, General Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April 2020 and General Circular No. 17/2020 dated 13th April 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs, the 17th Annual General Meeting (AGM) of the members of Uravi T and Wedge Lamps Limited will be held on Friday, 24th September 2021 at 3:00 P.M. through video conferencing facility without any physical presence of members. The process of participation in the AGM will be provided in the Notice of the AGM. The Annual Report along with AGM Notice will also be available on the website of the Company www.uravilamps.com and on the stock exchange website at www.nseindia.com. No hard copies of the Annual Reports will be made available to the Members.

Manner to update email addresses:
The shareholders holding shares in electronic mode are also requested to register / update their email address, Permanent Account Number (PAN) and Bank Account details with the Depository Participant where their respective dematerialised accounts are maintained.

The remote e-voting as well as e-voting at the AGM on the proposals contained in the Notice of the AGM will be conducted on the e-voting system to be provided by the Company. The details of the e-voting system and process of e-voting will be specified in the Notice of the AGM.

This newspaper intimation will also be available on the Company's website www.uravilamps.com and on the website of NSE at www.nseindia.com.

By order of the Board of Directors
sd/-
Kaushik Damji Gao
Whole-time Director & CEO
Date : 1st September 2021
Place : Mumbai DIN : 00515876
Rameshwar Media

UVAL
URAVI T AND WEDGE LAMPS LIMITED
CIN: L31500MH2004PLC145760

Regd. Off.: Shop No. 329 A/W, Nirmal Galaxy, L. B. S Marg, Mulund West, Mumbai-400080
Website: www.uravilamps.com; Email: info@uravilamps.com

INFORMATION REGARDING THE 17th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERRING (VC)/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

NOTICE is hereby given that pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013, Rules made thereunder and General Circular No. 02/2021 dated 13th January 2021, General Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April 2020 and General Circular No. 17/2020 dated 13th April 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs, the 17th Annual General Meeting (AGM) of the members of Uravi T and Wedge Lamps Limited will be held on Friday, 24th September 2021 at 3:00 P.M. through video conferencing facility without any physical presence of members. The process of participation in the AGM will be provided in the Notice of the AGM. The Annual Report along with AGM Notice will also be available on the website of the Company www.uravilamps.com and on the stock exchange website at www.nseindia.com. No hard copies of the Annual Reports will be made available to the Members.

Manner to update email addresses:
The shareholders holding shares in electronic mode are also requested to register / update their email address, Permanent Account Number (PAN) and Bank Account details with the Depository Participant where their respective dematerialised accounts are maintained.

The remote e-voting as well as e-voting at the AGM on the proposals contained in the Notice of the AGM will be conducted on the e-voting system to be provided by the Company. The details of the e-voting system and process of e-voting will be specified in the Notice of the AGM.

This newspaper intimation will also be available on the Company's website www.uravilamps.com and on the website of NSE at www.nseindia.com.

By order of the Board of Directors
sd/-
Kaushik Damji Gao
Whole-time Director & CEO
Date : 1st September 2021
Place : Mumbai DIN : 00515876
Rameshwar Media

AXIS BANK LIMITED **Plot No.41, Seshadri Road, Anand Rao Circle, Bengaluru-Karnataka-560009**

DEMAND NOTICE

(Under Section 13(2) of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 with Rule (3) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002). Whereas, at the request of you, the below mentioned person(s), have been granted various credit facilities from time to time by way of financial assistance against various assets creating security interest in favour of the Bank, the particulars of property (ies) mortgaged by you by way of deposit of title deeds created security interest in favour of the bank are mentioned hereunder. As you have failed to discharge the debt due to the Bank, your accounts have been classified as Non-Performing Assets as per the guidelines issued by the Reserve Bank of India. As the Demand Notices that were sent by Regd. Post calling upon to discharge the debt due to the Bank were returned by the Postal Department, this notice is issued.

| S. No. | Name of the Applicant / Co-Applciant/ Guarantors/ Ac.No. | Liability in Rs. | Schedule of Immoveable Property |
|--------|--|--|--|
| 1. | Mr. Nagaprasanna Upoor Ananda, Post Box 381, Baysh 45971, Kiang Abdazai St, Aslami Jazan, Jazan-82822, Saudi Arabia, Mr. Nagaprasanna Upoor Ananda, Saudi Cana Catering Est., Post Box 63826, Riyadh, KSA, Riyadh-11682, Saudi Arabia (Borrower/Mortgagor), Namita Nagaprasanna Shetty, D.No. 29(4)/2, 1st Floor, Behind Vyayamashala, Bhatnagar, Ullal, Mangalore-575020. Namita Nagaprasanna Shetty, B-1 Ashok Vihar, Phase 2, Nr. Hanuman Mandir Gurgaon Haryana-122001 (Borrower/ Mortgagor). NPA Date: 06-09-2019 Loan Ac No.: PHR007702312814 Demand Notice Date: 03-06-2021 | 47,34,444/- being the amount due as on 03.06.2021 and on termination of the agreement together with further interest at the contractual rate of interest as detailed herein above, till the date of payment | Non-Agricultural (Converted) Immoveable property situated in Padavu Village, Mangalore Taluk, within Mangalore City Corporation and within the Registration Sub District of Mangalore City District and Comprised in: RS No.Extent Portion 291/25 0-30.34 Middle 291/2B 0-64.00 Southern 291/2B 0-08.00 Middle Total 1-02.34; With all mamool easementary rights appurtenant thereto. All aforesaid 3 items of properties form a compact block and having following common boundaries: Boundaries: North: Portion of the same S.No. i.e 291/B, South: Survey Line, East: Survey Line, West: Road. SCHEDULE "A" PROPERTY: All that North portion of the North Property comprising of Sy No.31 measuring 2.17 acres (8766 Sq.Mts) Sy.No.32 measuring 3.61 Acres (14597 Sq. Mtrs) and Sy.No.33 measuring 4.23 Acres (17125 Sq.Mtrs) in all together measuring about 10 acres (40488 Sq. Mtrs) duly converted for Non-agricultural purposes vide order of the Special Deputy Commissioner (Revenue), Bangalore District, Bangalore, bearing No ALN(A)/A/SR 373/2007-08 dated 02/02/2010 in all measuring 24 Acres 25 Guntas and situated in Gollahalli Village, Attibele Hobli, Anekal Taluk and bounded by: East: Road, West: Maragondanahalli Village Boundary, North: Doddathour Village Boundary, South: Property in Sy.No.28. SCHEDULE "B" PROPERTY: All that North portion of the North Property comprising of Sy No.31 measuring 2.17 acres (8766 Sq.Mts) Sy.No.32 measuring 3.61 Acres (14597 Sq. Mtrs) and Sy.No.33 measuring 4.23 Acres (17125 Sq.Mtrs) in all together measuring about 10 acres (40488 Sq. Mtrs) duly converted for Non-agricultural purposes vide order of the Special Deputy Commissioner (Revenue), Bangalore District, Bangalore, bearing No. ALN(A)/A/SR 373 & 374/2007-2008 both dated 2-2-2020 (less area relinquished to Bangalore Development Authority) and situated in Gollahalli Village, Attibele Hobli, Anekal Taluk and bounded by: East: Road, West: Maragondanahalli Village Boundary, North: Doddathour Village Boundary, South: Portion reserved for peripheral ring Road and thereafter "PRESTIGE SUNRISE" PARK- BIRCHWOOD. SCHEDULE "B" PROPERTY (Undivided Share hereby conveyed): All that Residential Apartment bearing No 3256 in Level-25 Twenty Fourth Floor of tower "3" in Building-2 in "PRESTIGE SUNRISE PARK- NORWOOD" constructed in accordance with Schedule "A" Property and measuring 1128 Sq.ft of Super Built up Area, inclusive of Proportionate share in common areas such as passages, lobbies, lifts, Staircases and other areas of common use, with right to use one covered car parking space in the basement floor and the Apartment is presently bearing Khata No 1566/24th FN-3256 in the records of City Municipal Council Hebbagodi and Property is situated in Gollahalli village Attibele Hobli, Anekal taluk and the apartment is bounded by: East: Apartment No.3255 in level-25, Twenty Fourth Floor of Tower-3 in buildings-2 in "PRESTIGE SUNRISE PART-NORWOOD"; West: Open towards open space in tower-3 in buildings-2 in "PRESTIGE SUNRISE PART-NORWOOD"; North: Corridor in level-25 Twenty Fourth Floor of tower-3 in building-2 "PRESTIGE SUNRISE PART-NORWOOD"; South: Open towards open space in tower-3 in building-2 in "PRESTIGE SUNRISE PART-NORWOOD". The walls are built out of hollow cement with RCC flooring and verified tile flooring. It is provided with amenities like Electricity, water and sanitary connections. The paneled doors and doorframes for all doors and windows are of anodized aluminium panels/UPVC. |

If you the above mentioned persons fail to repay the above-mentioned amount due by you with future interest and incidental expenses, costs as stated above in terms of this notice under Section 13(2) of SARFAESI Act. within 60 days from the date of this notice the Bank will exercise all or any of the rights detailed under Section 13(4) of SARFAESI Act and other applicable provisions of the said Act. This notice is without prejudice to the Bank's right to initiate such other actions or legal proceedings, as it deem necessary under any other Provisions of Law.

Date: 31-08-2021, Place: Haryana
sd/-
Authorized Officer, Axis Bank Limited

AXIS BANK LIMITED **Plot No.41, Seshadri Road, Anand Rao Circle, Bengaluru-Karnataka-560009**

DEMAND NOTICE

(Under Section 13(2) of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 with Rule (3) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002). Whereas, at the request of you, the below mentioned person(s), have been granted various credit facilities from time to time by way of financial assistance against various assets creating security interest in favour of the Bank, the particulars of property (ies) mortgaged by you by way of deposit of title deeds created security interest in favour of the bank are mentioned hereunder. As you have failed to discharge the debt due to the Bank, your accounts have been classified as Non-Performing Assets as per the guidelines issued by the Reserve Bank of India. As the Demand Notices that were sent by Regd. Post calling upon to discharge the debt due to the Bank were returned by the Postal Department, this notice is issued.

| S. No. | Name of the Applicant / Co-Applciant/ Guarantors/ Ac.No. | Liability in Rs. | Schedule of Immoveable Property |
|--------|--|--|---|
| 1. | Mrs. Akanika Shrivastava, No.52 No.302 Smondville Apartments, Neotown, Electronic City, Phase-1, Bangalore, Karnataka-560100, India (Applicant/Mortgagor), Mrs. Akanika Shrivastava, No.64 A E-3, Shatabdi Vihar, Sector-52, Noida, Uttar Pradesh-201305, India (Applicant/Mortgagor), Mrs. Nishi Srivastava, No.52, No.302, Smondville Apartments, Neotown, Electronic City, Bangalore, Karnataka-560010, India (Co-Applciant/ Mortgagor). NPA Date: 04-01-2021 Loan Ac No.: PHR000901965847 & PHR000902195473 Demand Notice Date: 03-06-2021 | 55,92,943/- being the amount due as on 03.06.2021 and on termination of the agreement together with further interest at the contractual rate of interest as detailed herein above, till the date of payment | DESCRIPTION OF THE LARGER PROPERTY: All that Properties measuring (1) 05 Acres 14 Guntas in Sy. No. 29(2) o5 Acres 07 Guntas in Sy No 32 and (3) 3 Acres 36 Guntas in Sy No. 33 duly Converted for Non-Agricultural purposes Vide Order of the Special Deputy Commissioner (Revenue), Bangalore District, Bangalore bearing No. ALN (A) (A) SR 374/2007-2008 dated 2/02/2010 and properties measuring (1) 04 Acres 21 Guntas in Sy No. 30 and (2) 05 Acres 27 Guntas in Sy No 31, duly Converted for Non-agricultural purposes vide order of the Special Deputy Commissioner (revenue) Bangalore District, Bangalore, bearing No ALN(A)/A/SR 373/2007-08 dated 02/02/2010 in all measuring 24 Acres 25 Guntas and situated in Gollahalli Village, Attibele Hobli, Anekal Taluk and bounded by: East: Road, West: Maragondanahalli Village Boundary, North: Doddathour Village Boundary, South: Property in Sy.No.28. SCHEDULE "A" PROPERTY: All that North portion of the North Property comprising of Sy No.31 measuring 2.17 acres (8766 Sq.Mts) Sy.No.32 measuring 3.61 Acres (14597 Sq. Mtrs) and Sy.No.33 measuring 4.23 Acres (17125 Sq.Mtrs) in all together measuring about 10 acres (40488 Sq. Mtrs) duly converted for Non-agricultural purposes vide order of the Special Deputy Commissioner (Revenue), Bangalore District, Bangalore, bearing No. ALN(A)/A/SR 373 & 374/2007-2008 both dated 2-2-2020 (less area relinquished to Bangalore Development Authority) and situated in Gollahalli Village, Attibele Hobli, Anekal Taluk and bounded by: East: Road, West: Maragondanahalli Village Boundary, North: Doddathour Village Boundary, South: Portion reserved for peripheral ring Road and thereafter "PRESTIGE SUNRISE" PARK- BIRCHWOOD. SCHEDULE "B" PROPERTY (Undivided Share hereby conveyed): All that Residential Apartment bearing No 3256 in Level-25 Twenty Fourth Floor of tower "3" in Building-2 in "PRESTIGE SUNRISE PARK- NORWOOD" constructed in accordance with Schedule "A" Property and measuring 1128 Sq.ft of Super Built up Area, inclusive of Proportionate share in common areas such as passages, lobbies, lifts, Staircases and other areas of common use, with right to use one covered car parking space in the basement floor and the Apartment is presently bearing Khata No 1566/24th FN-3256 in the records of City Municipal Council Hebbagodi and Property is situated in Gollahalli village Attibele Hobli, Anekal taluk and the apartment is bounded by: East: Apartment No.3255 in level-25, Twenty Fourth Floor of Tower-3 in buildings-2 in "PRESTIGE SUNRISE PART-NORWOOD"; West: Open towards open space in tower-3 in buildings-2 in "PRESTIGE SUNRISE PART-NORWOOD"; North: Corridor in level-25 Twenty Fourth Floor of tower-3 in building-2 "PRESTIGE SUNRISE PART-NORWOOD"; South: Open towards open space in tower-3 in building-2 in "PRESTIGE SUNRISE PART-NORWOOD". The walls are built out of hollow cement with RCC flooring and verified tile flooring. It is provided with amenities like Electricity, water and sanitary connections. The paneled doors and doorframes for all doors and windows are of anodized aluminium panels/UPVC. |

If you the above mentioned persons fail to repay the above-mentioned amount due by you with future interest and incidental expenses, costs as stated above in terms of this notice under Section 13(2) of SARFAESI Act. within 60 days from the date of this notice the Bank will exercise all or any of the rights detailed under Section 13(4) of SARFAESI Act and other applicable provisions of the said Act. This notice is without prejudice to the Bank's right to initiate such other actions or legal proceedings, as it deem necessary under any other Provisions of Law.

Date: 31-08-2021, Place: Delhi
sd/-
Authorized Officer, Axis Bank Limited

Amrit Corporation Limited
CIN: L15141UP1940PLC00946
Regd. Office: CM-28/First Floor)
Gagan Enclave, Amrit Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201009
Tel: (0120) 2866880; Fax: (0120) 2866888
Email ID : info@amritcorp.com; www.amritcorp.com

Notice is hereby given that following share certificates issued by the company are stated to be lost / misplaced and the registered holders thereof have applied to the Company for issue of duplicate share certificates. **Folio No. : T00132; Name of the Shareholder: BINA CHANDRU BADLANI & LATE. CHANDRU PARTABRAI BADLANI; Share Certificate No. : 17024; Distinctive Numbers From : 1866396; Distinctive Numbers To: 1866620; No of Shares : 225.** The public is hereby warned against purchasing or dealing in any way with the above share certificates. Any person(s) who has/ have any claim(s) with the company in respect of the said share certificates should lodge such claims at its registered office at the address given above within 15 days of the publication of this notice after which no claim will be entertained and the Company will proceed to issue duplicate share certificates.

For Amrit Corporation Limited
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 01/09/2021

pnbb **Circle Sastra Centre, 7, Bhikhaji Cama Place, New Delhi-110066 E-Mail: cs8320@pnbb.co.in**

POSSESSION NOTICE

Hinsui Engineering Pvt. Ltd., Head Office: 2nd Floor, Goyal House, TA-98 Main Road, Tughlakabad Extn New Delhi 110019

Hinsui International Pvt. Ltd., Head Office: 2nd Floor, Goyal House, TA-98 Main Road, Tughlakabad Extn New Delhi 110019

Shri Rakesh Kumar Goyal, Res add: S83, 2nd Floor, GK-2 New Delhi, Office address: 2nd Floor, Goyal House, TA-98 Main Road, Tughlakabad Extn New Delhi 110019

Shri Dheeraj Kumar Goyal, Res Address: S83, 2nd Floor, GK-2 New Delhi, Office address: 2nd Floor, Goyal House, TA-98 Main Road, Tughlakabad Extn New Delhi 110019

Smt. Usha Goyal, Res Address : S83, 2nd Floor, GK-2 New Delhi, Office address: 2nd Floor, Goyal House, TA-98 Main Road, Tughlakabad Extn New Delhi 110019

Shri D K Goyal, Res Address : S83, 2nd Floor, GK-2 New Delhi, Office address: 2nd Floor, Goyal House, TA-98 Main Road, Tughlakabad Extn New Delhi 110019

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Punjab National Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of Powers conferred under Section 13 read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice dated 08.08.2019 calling upon the Borrower **M/s Hinsui International Pvt. Ltd.- 06194015001992** to repay the amount mentioned in the notice being Rs. **2,99,24,647.61 (Rupees Two crore ninety nine lakh twenty four thousand six hundred forty seven and sixty one paise only)** and **M/s Hinsui Engineering Pvt. Ltd. - 06194015001038** to repay the amount mentioned in the notice being Rs. **2,02,29,715.02 (Rs two crore two lakh twenty nine thousand seven hundred fifteen and two paise only)** within 60 days from the date of notice/date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this **31st day of August of the year 2021**.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Punjab National Bank for an amount of Rs. **5,01,54,362.63** as on **31.7.2019** and interest thereon.

The borrower's/guarantor's/mortgagor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

- Equitable Mortgage of flat having an area of 900 Sq. feet on the second floor (Front Portion) of the Building situated on Plot No. S-83, Greater Kailash-II, New Delhi standing in the name of Rakesh Goyal S/o Sh. Devinder Kumar Goyal
- Equitable Mortgage of terrace of the Second Floor (Front Portion) having an area 900 Sq. feet) of the Building situated on Plot No. S-83, Greater Kailash-II, New Delhi standing in the name of Dheeraj Goyal S/o Davinder Kumar Goyal
- Equitable Mortgage of flat having an area of 900 Sq. feet on the second floor (rear portion) of the Building situated on Plot No. S-83, Greater Kailash-II, New Delhi Standing in the name of Dheeraj Goyal S/o Davinder Kumar Goyal
- Equitable Mortgage of terrace of the Second Floor (rear portion) having an area 900 Sq. feet) of the Building situated on Plot No. S-83, Greater Kailash-II, New Delhi standing in the name of Smt. Usha Goyal W/o Sh. Davinder Kumar Goyal

Date : 31-08-2021, Place : New Delhi Authorized Officer, Punjab National Bank

pnbb **Circle Sastra Centre, 7, Bhikhaji Cama Place, New Delhi-110066 E-Mail: cs8320@pnbb.co.in**

POSSESSION NOTICE

Hinsui Engineering Pvt. Ltd., Head Office: 2nd Floor, Goyal House, TA-98 Main Road, Tughlakabad Extn New Delhi 110019

Hinsui International Pvt. Ltd., Head Office: 2nd Floor, Goyal House, TA-98 Main Road, Tughlakabad Extn New Delhi 110019

Shri Rakesh Kumar Goyal, Res add: S83, 2nd Floor, GK-2 New Delhi, Office address: 2nd Floor, Goyal House, TA-98 Main Road, Tughlakabad Extn New Delhi 110019

Shri Dheeraj Kumar Goyal, Res Address: S83, 2nd Floor, GK-2 New Delhi, Office address: 2nd Floor, Goyal House, TA-98 Main Road, Tughlakabad Extn New Delhi 110019

Smt. Usha Goyal, Res Address : S83, 2nd Floor, GK-2 New Delhi, Office address: 2nd Floor, Goyal House, TA-98 Main Road, Tughlakabad Extn New Delhi 110019

Shri D K Goyal, Res Address : S83, 2nd Floor, GK-2 New Delhi, Office address: 2nd Floor, Goyal House, TA-98 Main Road, Tughlakabad Extn New Delhi 110019

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Punjab National Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of Powers conferred under Section 13 read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice dated 08.08.2019 calling upon the Borrower **M/s Hinsui International Pvt. Ltd.- 06194015001992** to repay the amount mentioned in the notice being Rs. **2,99,24,647.61 (Rupees Two crore ninety nine lakh twenty four thousand six hundred forty seven and sixty one paise only)** and **M/s Hinsui Engineering Pvt. Ltd. - 06194015001038** to repay the amount mentioned in the notice being Rs. **2,02,29,715.02 (Rs two crore two lakh twenty nine thousand seven hundred fifteen and two paise only)** within 60 days from the date of notice/date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this **31st day of August of the year 2021**.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Punjab National Bank for an amount of Rs. **5,01,54,362.63** as on **31.7.2019** and interest thereon.

The borrower's/guarantor's/mortgagor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets

DESCRIPTION

